

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए सभी पार्क बंद किए

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 मार्च, 2020) – ब्रैम्पटन में COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, अगले नोटिस तक, सभी 500+ पार्क जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह बदलाव तुरंत लागू होता है।

इनमें शामिल हैं:

- प्लेग्राउंड
- बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्क (डॉग पार्क)
- सभी आउटडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज और आउटडोर फिटनेस उपकरण
- पिकनिक शेल्टर

इस सप्ताह सिटी के पार्कों पर, पार्क बंद होने के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।

शारीरिक दूरी और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे होने से बचने के लिए निवासियों के लिए, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के निर्देश के मुताबिक, पार्कों को बंद किया जा रहा है।

किसी भी समस्या की रिपोर्ट करने के लिए निवासी, सिटी की सिक्योरिटी सर्विसिज (Security Services) को 905.874.2111 पर फोन कर सकते हैं।

इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए कि COVID-19 की स्थिति के दौरान सिटी ऑफ ब्रैम्पटन क्या कर रही है, [www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19) पर जाएं।

### हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हमारे निवासियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। हम COVID-19 को अधिक फैलने से रोकने में मदद के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम निवासियों से अनुरोध करते हैं कि वे शारीरिक दूरी को कायम रखें। इस वायरस के चक्र को तोड़ने के लिए, हमें ठोस उपाय करने की जरूरत है। यह बेहद जरूरी है कि निवासी इस स्थिति की गंभीरता को और इस समय शारीरिक दूरी रखने और घर में रहने के महत्व को समझें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के सभी पार्कों को बंद करने की आज की घोषणा, इस समय के दौरान हमारे निवासियों और स्टाफ को सुरक्षित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। COVID-19 एक तेज़ी से बढ़ने वाली महामारी है। हम स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार उसके मुताबिक कदम उठा रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)